



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (श०)
(सं० पटना 549) पटना, बृहस्पतिवार, 7 मई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना
2 मार्च 2015

सं० 1665—श्री श्री 108 वाणेश्वरी भगवती स्थान, ग्राम-भंडारिसो मकरंदा, पोस्ट-भंडारिसो, भाया-मनीगाछी, थाना+अंचल-मनीगाछी, जिला-दरभंगा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 4259 है। यह एक प्राचीन एवं विख्यात मंदिर है।

इस न्यास के सुचारु प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति के गठन के लिए सदस्यों का नाम भेजने हेतु करने का निर्णय अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को पर्षदीय पत्रांक 2243 दिनांक 26.02.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त पत्र के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा से उनके पत्रांक 1738 दिनांक 02.12.2014 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह व्यक्तियों का नाम प्राप्त हुआ है। इसके आलोक में न्यास के सुचारु प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री श्री 108 वाणेश्वरी भगवती स्थान, ग्राम-भंडारिसो मकरंदा, पोस्ट-भंडारिसो, भाया-मनीगाछी, थाना+अंचल-मनीगाछी, जिला-दरभंगा, की सम्पत्तियों की सुरक्षा संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री श्री 108 वाणेश्वरी भगवती स्थान, न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री श्री 108 वाणेश्वरी भगवती स्थान, न्यास समिति,” होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 02.03.2015 से पाँच वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	श्री राघवेन्द्र झा, पिता-स्व० वट्टी नारायण झा, ग्राम-मकरन्दा, पोस्ट-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	—	अध्यक्ष
(2)	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा	—	सचिव
(3)	डा० राम मोहन झा, ग्राम-मकरन्दा, पोस्ट-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	—	कोषाध्यक्ष
(4)	श्री नरेन्द्र नारायण दास, पिता स्व० गोपी वल्लभ दास, ग्राम-बलौर, पोस्ट-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	—	सदस्य
(5)	श्री सुखदेव मंडल, पिता-श्री मखन मंडल, ग्राम-मकरन्दा, पोस्ट-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	—	सदस्य
(6)	श्री उमेश चन्द्र झा, पिता स्व० तिरपित नारायण झा ग्राम-मकरन्दा, पोस्ट-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	—	सदस्य
(7)	श्रीमती सुन्नर मुन्नी देवी, पति विश्वनाथ मिश्र, ग्राम+पोस्ट-भंडारीसों, जिला-दरभंगा	—	सदस्य
(8)	श्री फुल कुमार झा, पिता रामचन्द्र झा, ग्राम+पोस्ट-भंडारीसों, जिला-दरभंगा	—	सदस्य
(9)	डा० लक्ष्मण कुमार झा, पिता श्री नागेन्द्र झा, ग्राम-मकरन्दा, पोस्ट-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	—	सदस्य
(10)	श्री दुर्गानन्द झा, पिता फौदार झा, ग्राम+पोस्ट-भंडारिसों भाया-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	—	सदस्य
(11)	श्री बिहारी सदा पिता सकुन्त सदाय ग्राम-मकरन्दा, पोस्ट-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	—	सदस्य

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 549-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>